FINANCIAL EXPRESS

SALE

NOTICE

SW HOLDINGS LIMITED

(CIN: L67120MH2001PLC217751) Registered Office: Village Vasind, Taluka Shahapur, District Thane - 421 604; Phone: 02527- 220022/25; Fax:02527- 220020/84

NOTICE

Notice is hereby given that the certificate(s) for the under mentioned securities of the Company have been lost/misplaced and the holder(s) of the said securities have applied to the Company to issue duplicate certificate(s). Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with our Registrar and Share Transfer Agent KFin Technologies Private Limited (Formerly known as Karvy Fintech Private Limited) at Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31 & 32, Gachibowii, Financial District, Nanakragmuda, Srilingampally, Hyderabad-500032, in writing within 15 days from this date, else the Company will proceed to issue duplicate certificate(s) without further intimation.

Serial No.	Name of the Holders	Kind of Securities and face value	Folio No.	No. of securities	Distinctive Number
100000	Sunderlal karsenji Min (Deceased) Sushila Sunderlal Min (Deceased) Jasumati kantilal Thacker	Equity shares of face value of Rs 10 each	S00983	12	550988- 550999

Place: Mumbai

Date: 15.07.2021

JENDAL Part of O.P. Jindal Group

For JSW Holdings Limited Sd/-Sanjay Gupta Company Secretary



PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan, Outab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110 016 CORRIGENDUM TO THE NOTICE ISSUED BY PFRDA ON 01.07.2021

REFERENCE is invited to the Advertisement issued by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) on 01.07.2021 in the newspapers and the detailed notice hosted on the web site of the Authority inviting proposals for selection of Sponsors of Pension Funds (PFs) for NPS Government Sector Schemes, Private Sector Schemes and/or any other scheme regulated/ administered by the Authority under PFRDA (Registration of Pension Funds) Guidelines, 2021.

In a partial modification of the above mentioned guidelines under point no. 11 of Pre-Qualification Criteria mentioned under clause 9, in line 4, the words "forty-nine per cent" shall be substituted with "seventy-four per cent" in line with the PFRDA (Pension Fund) Regulations, 2015 and subsequent amendments thereto. Annexure IV of these guidelines is also stands revised in accordance with the above change.

davp 15102/11/0005/2122

Sumit Kumar **General Manager**



ART HOUSING FINANCE (INDIA) LIMITED

(Formerly known as ART Affordable Housing Finance (India) Limited)
Regd. Office: 107, First Floor, Best Sky Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110034 Branch Office: 49, Udyog Vihar Phase 4, Gurugram, Haryana 122015

ENFORCEMENT OF SECURITY INETREST ACT, 2002 Undersigned, being the Authorised Officer of ART Housing Finance (India) Limited, a Financial Institution under Section

2(1)(m)(v) of the SARFAESI Act, 2002 having its registered Office at 107, Best Sky Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi-110034 hereafter "the Secured Creditor") serve upon the present notice in below loan accounts number which were declared NPA as on 25.03.2021 NAME OF ADDRESS OF PROPERTY ADDRESS OF OUTSTANDING

NU.	A/C NUMBER	CO-BORROWER &	CO-BORROWER &	SECURED ASSETS	NOTICE 13(2)	DOES
1.	LXPNL05517 -170001063	Sanjay Kumar Birju Sav Alias Sanjay Birju Sav & Bimalidevi Sanjay Kumar Sav	Room No.5/6 Shiv Sahyadri Colony, Katemanivali, Shankar Pawshe Road, Opp-Samant Kamla Devi College, Katemanivali Kalyan, Kalyan, Maharashtra - 421306	Property Being Flat No. 006, Ground Floor Built Up Area Admeasuring 525 Sq.Ft F- Wing, Sargam Co-Operative Housing Society Ltd. Constructed on Plot No. 35 & 36, Sector -09, Situated at - Kamothe, Navi Mumbai, Tal. Panvel, Distl. Raigad Maharashtra, Bounded as under the title Documents.	14.06.2021	Rs. 23,18,217/- (Rupees Twenty Three Lakh Eighteen Thousand Two Hundred and Seventeen Only) as on 11.06.2021
2	LNKLN02717 -180003800	RAVINORA KUMAR & SANJU DEVI RAVINORA KUMAR PAL & SURENORA KUMAR CHHABINATH PAL & DHARMENORA CHHABINATH PAL	Near Mateshwari Regency, Karjat, Raigadh, Gundge, Near Police Patel House, Raigad-410201, Maharashtra & House No.101, Near School, Bhonda, Aneai, Jaunpur, Varanasi, Ultar Pradesh-221201 & Near Mateshwari Regency, Karjat, Raigadh, Gundge, Near Police Patel	Property Being Flat No. 102, 1" Floor in The Building Known as "Swami Chayya" Apartment. S. No. 90, Plot No. 37 & 38 Mouje Dhamote, Neral (East), Tal- Karjat, Distt. Raigad, Maharashtra, Bounded as under in the title documents.	14.06.2021	Rs. 14,40,632/- (Rupees Fourteen Lakh Forty Thousand Six Hundred and Thirty Two Only) as on 11.06.2021

The Noticee's are called upon to pay the above said amount within 60 days from the date of this notice failing which AHFL will be constrained to exercise its rights of enforcement of security Interest as against the Secured Assets given in the Secured assets mentioned herein. This notice is without prejudice to any other right remedy available to the AHFL. The Borrower's attention is invited to provision of the sub section (8) of section 13 of the act, in respect of time

Raigad-410201,

available, to redeem the secured assets. Authorised Officer Date: 15.07.2021

Place: RAIGAD ART Housing Finance (India) Limited

Himadri Speciality Chemical Ltd

CIN: L27106WB1987PLC042756 Regd. Office: 23A, Netaji Subhas Road, 8th Floor, Kolkata- 700 001 Corp. Office: 8, India Exchange Place, 2nd Floor, Kolkata- 700 001 Ph No: 91-033-22309953/ 22304363 Fax: 91-033-22309051. Website: www.himadri.com

Sub: Updation of Email id, PAN and Bank Mandate of Shareholders

Notice is hereby given that in view of the ongoing novel Coronavirus pandemic (*COVID-19") in the Country, several measures have been taken by Government to curb the spread of virus through social distancing. There are restrictions on movement and / or gathering of persons and have impact on several services including postal and courier services.

Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India vide their circular no 02/2021 dated 13 January 2021 read with Circular no. 20/2020 dated 05 May 2020 has allowed Companies to conduct their Annual General Meeting (AGM) through video conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM), during the calendar year 2021 (i.e till December 31, 2021). The Circular 20/2020 has also dispensed with the printing and dispatch of annual reports to shareholders and the same shall be sent only by email to the members of the Company.

Further SEBI vide its circular dated 15 January 2021 read with circular dated 12 May 2020 has also dispensed with the requirement of sending physical copies of annual report to shareholders for listed entities who conduct their AGMs during the calendar year 2021 (i.e. till December 31, 2021)

In view of the above we urge the shareholders for registration and/ or updation of their email id. Permanent Account Number (PAN) and bank mandate with the Company to ensure receipt of Annual Report, dividend and/or any other consideration and other communication timely, faster and easier and more importantly avoids fraudulent encashment of warrants.

Accordingly, to update the details with the Company, the following procedure may be

Updating/ Registration	Procedure
	Physical Holding: An email requesting for updation/ registration of mail id with a copy of PAN card and mentioning folio number may send to the Company's email id at investors@himadri.com or, Company's Registrar and Share Transfer Agent email id at skcdilip@gmail.com
Email Id & PAN	Demat Holding: Update the email id / PAN through your Depository Participant.
Bank Mandate	Physical Holding: An email requesting for updation/ registration of Bank Mandate with a copy of PAN card, cancelled cheque with name printed on cheque, copy of share certificate or any letter received from company or dividend warrant where folio number is mentioned may send to the Company's email id at investors@himadri.com or, Company's Registrar and Share Transfer Agent email id at skcdilip@gmail.com
	Demat Holding: Update the Bank mandate through your Depository Participant

needful at the earliest. For Himadri Speciality Chemical Ltd

Place: Kolkata

Date: 16 July 2021 Financial exp. epapr.in

Monika Saraswat Company Secretary



POSSESSION NOTICE (Immovable property)

Whereas, The undersigned being the Authorised officer of Bank of Baroda, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act ,2002 (54 of 2002) and in exercise of Powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued a Demand Notice dated 01-05-2021 calling upon the borrower Mr.Sunil Rajesh Pandit & Mrs. Gunjan Sunil Pandit to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 21,59,110.96 /-(Rupees Twenty One Lac Fifty Nine Thousand and One Hundred Ten and paise Ninty Six only) and interest thereon w.e.f. 01-05-2021 within 60 days

from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002 on this the

14 day of July of the year 2021. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Bank of Baroda, Karelibaug Branch, Vadodara for an amount of Rs. 21,59,110.96 /-(Rupees Twenty One Lac Fifty Nine Thousand and One Hundred Ten and paise Ninty Six only)and interest thereon.

Description of the Immovable Property

All that part and parcel of the Immovable Property being Flat No 201(on 2" Floor Flat admeasuring 82 Sq Mt), Sangath Society, Saakar Annexe 4, Sama Savli Road, Baroda Bearing R S No 607,608,609,611 & 654, T. P. No 1 & FP No.87,79,81,80,135,& 75 admeasuring 23493 sq mts of Sangath Society, Paikee Plot No P/33 having Plot area 393.76 sq.mts paikee developed Saakar Annexe 4 of mouje village Sama, in the Registration District Vadodara, Sub District Vadodara. Owned by Mr. Sunil Rajesh Pandit. Bounded: EAST: 7.50 Meter Road, WEST Margin Open Space, NORTH: Staircase & Lift Flat No. 201, SOUTH: Margin & Open Space

Place: Vadodara, Date: 14-07-2021

Authorised Officer, Bank of Baroda

JA DINIV



Place: Kolkata

Sr. No

Particulars

Date: 15th July, 2021

MANGALAM TIMBER PRODUCTS LIMITED

Birla Building, 9/1 R N Mukherjee Road, 10th Floor, Kolkata - 700 001 Regd. Office: Kusumi, Nabarangpur, Odisha - 764 059 Tel No: +91 6858 222148/142/053 Fax: +91 6858 222 042 Website: www.mangalamtimber.com, Email: admin@mangalamtimber.com CIN: L020010R1982PLC001101

SI.No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2021 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2021 (Audited)	Quarter ended 30.06.2020 (Unaudited)	Year ended 31.03.2021 (Audited)
1	Total Income	284,62	57.59	131.09	677.28
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or Extraordinary items)	(681,49)	(628.86)	(573.59)	(2732.81)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(681,49)	(628.86)	(573.59)	(2732.81)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(480.03)	(432.65)	(394.63)	(1880.15)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(482.86)	(448.10)	(393.25)	(1891.45)
6	Equity Share Capital	1832.74	1832.74	1832.74	1832.74
7	Other Equity				(9905.02)
8	Earnings per share (of Rs 10/- each) : Basic and Diluted	(2.62)	(2.36)	(2.15)	(10.26)

The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at the meeting held on 15th July 2021, and have been reviewed by the Statutory Auditors of the Company.

The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Regulrements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the Stock Exchanges websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website at www.mangalamtimber.com

The figure of the previous year/periods have been regrouped/rearranged wherever necessary. 4 The figures for three months ended 31st March, 2021 are arrived at as difference between audited figures in respect

of the full financial year and the unaudited published figures up to nine months ended 31st December 2020.

By order of the Board Vishwanath Chandak Director DIN:00313035

WHITE ORGANIC RETAIL LIMITED

CIN: L01100MH2011PLC225123

Registered Office: 312A, Kailas Plaza Vallabh Baug Lane, Ghatkopar (East) Mumbai 400077, Maharashtra, India. Tel: +91-22-25011983, Telefax: +91-22-25011984, Email: info@whiteorganics.co.in; Website: www.whiteorganics.co.in

RECOMMENDATIONS OF THE COMMITTEE OF INDEPENDENT DIRECTORS ("IDC")

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of White Organic Retail Limited under Regulation 26(7) of

Report

SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 ("Takeover Regulations") in relation to the Open Offer made by Suumaya Retail Limited ("Acquirer") together with Suumaya Industries Limited (Formerly known as Suumaya Lifestyle Limited) ("PAC") to the Public Shareholders of White Organic Retail Limited ("WORL" or the "Target Company" or "TC") for the acquisition of Equity Shares of the Target Company.

A.11.140	i di dodini s	Keport
1	Date	July 15, 2021
2	Name of the Target Company	White Organic Retail Limited
3	Details of the Open Offer pertaining TC	The Open Offer is being made by the Acquirer for Acquisition up to 28,36,080 (Twenty- Eight Lakhs Thirty-Six Thousand and Eighty) Equity Shares of the face value of Rs.10/- (Rupees Ten only) each representing in aggregate 26% (Twenty-Six percent) of the total paid up and voting equity share capital of the Target Company at an Offer price of Rs.37.45/- (Rupees Thirty-Seven and Forty-Five paise only) per fully paid up Equity Share payable in cash pursuant to Regulation 3(1) & 4 of SEBI (SAST) Regulations, 2011.
4	Name(s) of the Acquirer	Suumaya Retail Limited
5	Name(s) of the PAC	Suumaya Industries Limited (Formerly known as Suumaya Lifestyle Limited)
6	Name of the Manager to the offer	FEDEX SECURITIES PRIVATE LIMITED (Formerly known as Fedex Securities Limited) 3rd Floor, B Wing, Jay Chambers, Nanda Patkar Road, Vile Parle (E), Mumbai 400 057 Tel No.: +91 8104985149, Fax No.: 022 2618 6966 E-mail: mb@fedsec.in, Website: www.fedsec.in SEBI Registration Number: INM000010163 Investor Grievance E-mail: mb@fedsec.in, Contact Person: Yash Kadakia
7	Members of the Committee of Independent Directors ("IDC")	Mr. Pritesh Doshi - Chairman Mrs. Jigna Thakkar - Member
8	IDC Member's relationship with the TC (Director, Equity shares owned, any other contract/ relationship), if any	The Members of the IDC are Independent Directors on the Board of Directors of the Target Company. None of the members of the IDC hold any Equity Shares/ securities of the Target Company. None of the Members of the IDC have entered into any contract or have any relationship with the Target Company
9	Trading in the Equity shares/ other securities of the TC by IDC Members	None of the IDC members have traded in the Equity Shares of Target Company during 12 months prior to the date of the Public Announcement of the Offer on May 21, 2021
10	IDC. Member's relationship with the acquirers (Director, Equity shares owned, any other contract/ relationship), if any	None of the members of the IDC have any contracts / relationships / directorship / holding Equity shares of the Acquirer.
11	Trading in the Equity shares/ other securities of the acquirer by IDC Members	NotApplicable.
12	Recommendation on the Open offer,	The member of the IDC believe that the open offer made to the public shareholders of

as to whether the offer is fair and White Organic Retail Limited at the offer price of Rs. 37.45 (Thirty-Seven and paise Forty-Five only) per fully paid Equity Shares of face value of Rs. 10/- (Rupees Ten only) reasonable

Disclosure of Voting Pattern of the meeting in which the open offer proposal was discussed

each is fair and reasonable and the Open Offer is in conformity with provision of SEBI (SAST) Regulation 2011. All the IDC members unanimously voted in favor of recommending the open offer

Summary of reasons for recommendation

IDC has evaluated the Public Announcement dated May 21, 2021, the Detailed Public

Statement dated May 27, 2021 and Draft Letter of Offer dated June 04, 2021 and Letter

of Offer dated July 12, 2021. The IDC has taken into consideration the following for

making its recommendations: The Equity shares of TC are frequently traded within the meaning as provided in regulations 2 (j) of Takeover Regulations. As per the Equity Share Valuation report dated on May 21, 2021 of White Organic

Retail Limited given by CA Nikul Jalan (Membership No. 112353) partner at, Guptal Raj & Co., Chartered Accountants, having Firm Registration No.: 001687N, accordingly, the Offer Price is of equity share of Rs. 37.45/- (Rupees Thirty-Seven and Forty-Five paise only) per share. The Offer Price of Rs. 37.45/- (Rupees Thirty-Seven and Forty-Five paise only) per share is higher than price calculated after considering the parameters as specified

under Regulation 8(2) of Takeover Regulations. The public shareholders of the Target Company are advised to independently evaluate the Open Offer and take an informed decision about tendering the Equity Shares held by them in the Open Offer. 15 Details of Independent Advisor (if any) None

16 Any other matters to be highlighted To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the TC under the Takeover Code.

> For the behalf of Committee of Independent Directors of White Organic Retail Limited

> > Pritesh Doshi

Chairman - Committee of Independent Directors

MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD.

Mahindra Corporate Office: Mahindra Rural Housing Finance Ltd. Sadhana House, 2nd Floor, 570 P.B. Marg Worli, Mumbai 400 018 India, Tel: +91 22 66523500 Fax: +91 22 24972741 Regional Office: 82, 8th Floor, New Your Tower - A, Near Thaltej Cross Raod, Thaltej, Ahmedabad-380054

In exercise of powers conferred under section 13 (4) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security

Disposal of Secured Assets under Private Treaty, as provided under Rule 8(5)(d) of Security Interest Enforcement Rules, 2002 Particulars of which are given below:

Interest Act, 2002 (herein after referred to as "SARFAESI Act") and Rule 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (hereinafter referred to as "Rules") for the purpose of recovering the secured debts, the authorized officer of the secured creditor M/s Mahindra Rural Housing Finance Ltd. (hereinafter referred to as "MRHFL") has decided to sell the secured asset (immoveable Property), the possession of which had been taken by the Authorised officer of the Secured Creditor under S. 13 (4) of SARFAESI Act, described herein below on "AS IS WHERE IS BASIS" and "AS IS WHAT IT IS BASIS" and the public and all concerned including the concerned borrowers/mortgagors, their representatives, as the case may be are hereby informed that the secured asset listed below will be sold, particulars of which are given below. Name of the Borrower(s) Offer Amount Demand Notice Previous Discription of the /Guarantor(s) Date and Amount Immovable property Reserve price Received

		(Secured Assets)	& Auction Date	
1. SATISHBHAI RAJUBHAI SHINDE 2. SHARLABEN RAJUBHAI SHINDE 3. RAJUBHAI HIRALAL SHINDE BRANCH-SURAT XSEMSUR00453944 AT:- BUILDINIG O.202, A/17, EWS AVAS, AMROLI, CHHAPARABHATHA ROAD, KOSAD, SURAT, JOLVA, ANAND, GUJARAT-394305	02.02.2019 RS. 12,20,861/-	PLOT NO: 113,BLOCK NO:: 158,ARADHNA3, NR. JOLWA GRAM PANCHAYAT, JOLWA GAM,PALSANA,SURAT, ,GUJARAT-394315	NINE LAKHS FIFTY THOUSANDSONLY)	Rs. 8,00,000/- (RUPEES EIGHT LAKHS ONLY)
1.ANITABEN BABALBHAI VAGHELA 2. BABALBHAI HIRABHAI VAGHELA BRANCH-PALANPUR XSEMPAL00371725 AT:-75 GAURISADAN, NEAR RAILYWAY FATAK AT DEESA DIS BANASKANTHA, DEESA (M), , PALANPUR-DEESA, GUJARAT - 385535.	27.07.2019 RS. 4,03,836/-	BUNGLOW BHOYAN ROAD DEESA,GUJARAT-385535	Rs.6,00,000/- (RUPEES SIX LAKHS ONLY) 05.02.2021	Rs. 5,25,000/- (RUPEES FIVE LAKHS TWENTY FIVE THOUSANDS ONLY)
1. MRHFL acting through its Authorized C	Officer has now re	eceived offers to buy the same (of	er amount is tabulated in the	table above), and

we intend to accept it, interalia considering the fact that the previous public auction held was unsuccessful.

To Participate in Auction intended bidder has to deposit 10 % of the Reserve Price.

The detail terms and conditions of the auction sale are incorporated in the prescribed tender form. Tender forms are available on www.mahindraruralhousingfinance.com as well as above branch office. The sale will be subject to terms and conditions mentioned in

prescribed tender forms along with EMD 06/08/2021 at the branch office address mentioned herein above. Tenders that are not filled up properly or tenders received beyond last date will be considered as invalied tender and shall accordingly be rejected. No interest shall be

For further details, contact the Authorised Officers, Mr. Harshil Vyas 9664708017 Last date of submission of sealed offers in the

5. Date of opening of the offers for Property is 07/08/2021 at the above mentioned branch office address at 11.00 AM, the tender will be opened in the presence of the Authorised Officer.

Date of inspection of the immovable properety is 24/07/2021 between 10.00 AM to 5.00 PM.

The Borrower(s)/Guarantor(s) are hereby given 15 DAYS SALE NOTICE UNDER SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES. 2002 to pay the sum mentioned as above before the date of Auction failing which the offer received will be accepted and the immovable property will be auctioned and balance, if any, will be recovered with interest and costs. If the Borrower pays the amount due to Mahindra Rural Housing Finance Ltd., in full before the date of sale, auction is liable to be stopped.

The immovable property will be sold to the highest tendered. However, the undersigned reserves the absolute discretion to allow inter se bidding, if deemed necessary.

Place: Ahmedabad Date: 15/07/2021

Sd/- Authorised officer Mahindra Rural Housing Finance Limited

BAYER

BAYER CROPSCIENCE LIMITED

CIN: L24210MH1958PLC011173

Regd. Office: Bayer House, Central Avenue, Hiranandani Estate, Thane (West) - 400607. **Tel. No.:** 022-2531 1234; **Fax No.:** 022-2545 5063 Website: www.bayer.in; Email: ir bcsl@bayer.com



NOTICE is hereby given that the 63rd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held via Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") on Thursday, August 12, 2021 at 03:00 p.m. IST in compliance with General circular numbers 20/2020, 14/2020, 17/2020, 02/2021 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the business as set out in the Notice of the AGM dated May 25, 2021. The Notice of the AGM along with the link to access the Annual Report inter alia containing Directors' Report, Corporate Governance Report, Business Responsibility Report, Auditors' Report and the Audited Financial Statements has been emailed to all Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s) on or before Thursday, July 15, 2021 and the same is also available on the website of the Company at www.bayer.in as well as on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com and on the website of BSE Limited at www.bseindia.com.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting"), provided by NSDL and the business may be transacted through such voting.

The remote e-voting period commences on, Monday, August 09, 2021 (9.00 a.m. IST) and ends on Wednesday, August 11, 2021 (5.00 p.m. IST). During this period, members may cast their vote electronically. The remote e-voting module will be disabled by NSDL for voting thereafter. The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them

in the paid-up equity share capital of the Company as on Thursday, August 05, 2021 ("cut-off date"). Any person, who is a Member of the Company as on the cut-off date is eligible to cast vote on all resolutions set forth in the Notice of AGM using remote evoting or voting at the AGM.

The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again.

Those members, who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had

not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through remote e-voting system during the AGM. A person who has acquired shares and becomes a member of the Company after the dispatch of Notice of AGM and holds shares as of the cut-off date, may obtain the

login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if the

person is already registered with NSDL for remote e-voting, then the existing user ID

In case of any queries relating to remote e-voting facility, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the toll free no. 1800-222-990.

and password can be used.

Place: Thane

Date: July 16, 2021

Pursuant to Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of the shareholders w.e.f. April 01, 2020 and the Company is required to deduct tax at source ("TDS") from dividend paid to shareholders at the prescribed rates (plus applicable surcharge and cess) as may be notified from time to time. The information regarding the applicability of TDS rate for various categories of shareholders and documentation required, is available under the Investor section at www.bayer.in. The shareholders are requested to send all the necessary documents complete in all respect through email at dividend.india@bayer.com on or before Wednesday, July 28, 2021 to enable the Company to deduct the correct TDS on the dividend payment.

Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may register themselves as a speaker by sending their request from their registered email address mentioning their name, DP ID and Client ID /folio number, PAN, mobile number at ir_bcsl@bayer.com from Thursday, August 05, 2021 (IST 09:00 a.m.) to Monday, August 09, 2021 (IST 05:00 p.m.). Those Members who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the AGM. The Company reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM.

FURTHER NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, July 29, 2021 till Thursday, August 05, 2021 (both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of Final Dividend on the equity shares of the Company for the financial year ended March 31, 2021. The Final Dividend, if declared at the AGM will be paid on or after Friday, August 20, 2021 to those members whose name appears on the Company's Register of Members as holders of Equity Shares on Wednesday, July 28, 2021 and in respect of shares held in dematerialized form, to the Beneficial Owners of the equity shares as at the end of the day on the same date as per the details furnished by the Depositories for the purpose.

For Bayer CropScience Limited

Nikunjkumar Savaliya Company Secretary & Compliance Officer

ACS: 29322

Place: Mumbai

Date: July 15, 2021

60

संघ लोक सेवा आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 15 जुलाई।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को संघ लोक सेवा खुलासा करने का निर्देश दिया जो सिविल सेवा

परीक्षा के साक्षात्कार के लिए चयनित हो जाते अगर उनके आवेदन निरस्त न किए गए होते। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के एक पीठ ने ऐसे अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह कदम उठाया। इन अभ्यर्थियों के आवेदन निश्चित तिथि तक अपनी शैक्षिक योग्यता के प्रमाण जमा न कर पाने के कारण रद्द कर दिए गए थे।

पीठ ने कहा-हम यह देख रहे हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के हलफनामें के पैरा 13 में कुछ तथ्य दिए गए

हैं। हम चाहते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा अपनी स्थिति के बारे में हमें पुनः आश्वस्त करे आयोग को ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या का परीक्षा का मामला और सही संख्या की जानकारी दे। पीठ अब इस मामले में सुनवाई 16 जुलाई को करेगा।

याचिकाकर्ता सिविल सेवा 2020 के लिए आवेदन करते समय दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक पाठयक्रम के छात्र थे। याचिका के मुताबिक देश भर में पिछले साल मार्च में लागू पूर्णबंदी के कारण इन छात्रों के स्नातक पाठयक्रम की अंतिम वर्ष की परीक्षा जुलाई 2020 के बजाए दिल्ली विश्वविद्यालय ने अगस्त 2020 में आयोजित की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने संघ और झारखंड लोक सेवा आयोग से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 15 जुलाई (जनसत्ता ब्यूरो)।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश की अवेहलना को लेकर संघ लोक सेवा आयोग और झारखंड लोक सेवा आयोग से तीन हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक के लिए न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल रखने का आदेश दिया था। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश राय के एक पीठ ने राजेश कुमार की तरफ से दायर एक याचिका पर यह कदम उठाया।

याचिका में कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग नए महानिदेशक के चयन के लिए एक समिति गठित करने में नाकाम रहा है।



दिल्ला जल बार्डः रा.रा. क्षेत्र दिल्ला सरकार कार्यालयः सहायक आयुक्त (डी)

वरुणालय फेज-II, करोलबाग, नई दिल्ली-110005

''अपना हाथ साफ रखें'', ''मास्क पहनें'' ''सामाजिक दूरी का पालन करें'' पात्र अधिकारियों से रु. 37400-67000 तथा ग्रेड पे रु. 8900/- (पूर्व-संशोधित) के पीबी-4 में दिल्ली जल बोर्ड में प्रतिनियोजन पर मुख्य विधि अधिकारी के पद को भरने के लिये आवेदन आमंत्रित है। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि ''रोजगार समाचारों'' में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 45 दिनों की पूर्णता की तिथि होगी पात्रता मानदंड तथा आवेदन के प्रारूप दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाईट www.delhijalboard.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है।

पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 184 (2021-22)

सहा. आयुक्त (डी)

जगदीश गुप्त

प्रबंध निदेशक

(रू.लाखों में)

(19.99)

(19.99)

आरोपी को पिता के अंतिम संस्कार के लिए यात्रा की अनुमति

मुंबई, 15 जुलाई (भाषा)।

कोर्ट हाई बहरपतिवार को तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर की हत्या मामले के आरोपी विक्रम भावे को पिता के

अंतिम संस्कार दाभोलकर लिए रत्नागिरि जाने हत्या मामला की अनुमति दे दी। भावे के पिता का 25 जून को

निधन हो गया था। अदालत ने मई में भावे को जमानत दे दी थी, लेकिन उसे पुणे शहर नहीं छोड़ने का निर्देश दिया था, जहां मामले की सुनवाई चल रही है। आरोपी ने इस सप्ताह एक अर्जी दायर करके रत्नागिरि जाने की अनुमित मांगी थी, ताकि वह अपने पिता का अंतिम

संस्कार कर सके। न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति एनजे जामदार के खंडपीठ ने बृहस्पतिवार को भावे को तीन सप्ताह के लिए रत्नागिरि जाने की अनुमति दी और उसे सप्ताह में एक बार स्थानीय पुलिस थाने में पेश होने का निर्देश दिया। अदालत ने आरोपी को तीन हफ्ते बाद लौटने पर पुणे के डेक्कन पुलिस थाने में पेश होने का निर्देश भी दिया।

आगरा से अगवा चिकित्सक को चंबल के बीहड़ में छुड़ाया गया

धौलपुर (राजस्थान), 15 जुलाई

आगरा से दो दिन पहले अगवा किए गए चिकित्सक को बृहस्पतिवार सुबह चंबल के बीहड़ से बदमाशों से सुरक्षित छुड़ा लिया गया। राजस्थान और उत्तर प्रदेश पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में इस चिकित्सक को

Sr. No

Particulars

छुड़वाया गया। जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखांवत ने बताया कि आगरा और धौलपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने अगवा किए गए डॉ उमाकांत गुप्ता को बृहस्पतिवार तड़के चंबल के बीहड़ में बदमाशों के चंगुल से मुक्त करा लिया। आगरा की 'ट्रांस यमुना कॉलोनी' के निवासी गुप्ता को दो दिन पहले मंगलवार रात को अज्ञात बदमाशों ने अगवा कर लिया था। उनकी पत्नी विद्या गुप्ता ने एत्मादौला थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि चिकित्सक की रिहाई के बदले में पांच करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। गुप्ता को बचाने की कार्रवाई के दौरान बदमाश मौके से फरार हो गए।

फर्जी जांच रिपोर्ट लेकर आने वाले चार पयटक गगरफ्तार

जनसत्ता सवाददाता

देहरादून, 15 जुलाई।

उत्तराखंड पुलिस ने विभिन्न राज्यों से उत्तराखंड घमने आ रहे पर्यटकों से राज्य में दाखिल होने के लिए फर्जी कोरोना रिपोर्ट पकडी है, जिससे फर्जीवाडा कर कोरोना की आरटी पीसीआर रिपोर्ट बनाने का धंधा करने वालों और ऐसी फर्जी रिपोर्ट लेकर उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले

यात्रियों में खलबली मच गई है। देहरादुन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि देहरादून दिल्ली गाजियाबाद सहारनपुर से आने वाले पर्यटक कोरोना की आरटी पीसीआर की फर्जी रिपोर्ट लेकर उत्तराखंड में घुसने का प्रयास कर रहे थे, इसी सिलसिले में गुरुवार को देहरादून दिल्ली मार्ग में डाट काली के पास आशा रोड़ी चेक पोस्ट पर पुलिस ने मसुरी घुमने जा रहे गाजियाबाद के एक पर्यटक के पास से 10 फर्जी आरटी पीसीआर रिपोर्ट पकड़ी।

महत्वपूर्ण सूचना

सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि रेलवे द्वारा निम्नलिखित विशेष रेलगाड़ियों को तत्काल प्रभाव से अतिरिक्त ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:--

	(100)	-	
रेलगाड़ी की संख्या एवं रेलगाड़ी का नाम	स्टेशन	आगमन	प्रस्थान
02216 बान्द्रा टर्मिनस – दिल्ली सराय रोहिल्ला गरीब रथ स्पेशल	नडियाद जं.	17:38	17:40
02915 अहमदाबाद जं. – दिल्ली जं. आश्रम एक्सप्रेस स्पेशल	साबरमती	18:46	18:48
02916 दिल्ली जं. – अहमदाबाद जं. आश्रम एक्सप्रेस स्पेशल	साबरमती	05:58	06:00
09338 दिल्ली सराय रोहिल्ला – इन्दौर जं. मेल एक्सप्रेस स्पेशल	बड़नगर	06:31	06:33
09263 पोरबन्दर – दिल्ली सराय रोहिल्ला स्पेशल	हापा	22:23	22:25
09264 दिल्ली सराय रोहिल्ला – पोरबन्दर स्पेशल	हापा	05:57	05:59
	FG:	100	

नोट: रेलयात्रियों को सुझाव दिया जाता है कि उपरोक्त रेलगाडियों की विस्तृत समय-सारणी की जानकारी के लिए रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139 पर सम्पर्क करें अथवा रेलवे की वेबसाइट https://enquiry.indianrail.gov.in अथवा NTES App देखें।

रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर सामाजिक दूरी व सैनिटाइजेशन आदि सहित कोविड–19 से संबंधित राज्य एवं केन्द्र सरकार के सभी नियमों और अन्य सभी सावधानियों का पालन करना अनिवार्य है।

रेलमदद वेबसाइट देखें

पर हमें फॉलो करें

1595/2021

हेल्पलाइन नं.



ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

फीनिक्स एआरसी प्राईवेट लिमिटेड

13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना आपकी चक के उपरांत आपके ऋणों को गैर–प्रचालन परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बाद में डीड ऑफ एसाइन्मेन्ट तिथि 28.9.2018 के माध्यम से नीचे वर्णित खाताओं को केएफएसएल ने उसके पुनर्भुगतान के लिए अचल सम्पत्तियों के संदर्भ में निर्मित अधोलिखित प्रतिभृति हित के साथ उक्त ऋण प्राप्त करने के लिए आपके द्वारा निष्पादित दस्तावेजों के अनुसार उसका अधिकार, टाईटल, हित, लाभ, आप से वसुल की जाने वाली बकायों को फीनिक्स एआरसी प्रा.लि. (फीनिक्स ट्रस्ट एफवाई 19–10 के ट्रस्टी की हैसियत से कार्यरत) के पक्ष में सौंप दिया गया है। उक्त असाइन्मेन्ट के अनुसार तथा बकाये राशि की वसुली के लिए फीनिक्स एआरसी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम (अधिनियम), 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत फीनिक्स ने मांग सूचना जारी की जिसके विषय वस्तु को प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (2) के अनुसार तथा आपके लिए वैकल्पिक सेवा के द्वारा यहां नीचे प्रकाशित किया जा रहा है

रणधारक, सह-ऋणधारक का नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण	ा. मांग सूचना तिथि
एवं पता ऋण खाता सं.ऋण राशि	सम्पत्ति 1: उक्त सम्पत्ति के नीचे भूमि में फ्रीहोल्ड आनुपातिक अधिकार के साथ टीवी, डिश एन्टीना, स्पिटल एसी/पंखे आदि संस्थापित करने एवं छत	2. बकाया राशि रु.
	े ऊपर सीढ़ियों के माध्यम से प्रवेश के अधिकार के साथ सवमसिंवल, एन्ट्रैन्स, पैसेज, सीढ़ियों के साथ नवादा गाँव, मोहन गार्डन के नाम से विदित	1) 14.6.2021
ो अरुण कुमार, पुत्र श्री सोमनाथ	कॉलोनी में स्थित निर्मित फ्रान्ट साइट (कामर्सियल) तथा बैक साइड भू तल, छत/टैरेस के अधिकार के बिना, एरिया माप 82 वर्ग यार्ड्स (अर्थात्	
रमानी एवं अंकुश विरमानी, पुत्र श्री		लागतों तथा चार्जेज वे
मिनाथ विरमानी एवं श्रीमती स्माइली	पश्चिमः प्लॉट का भाग, उत्तरः प्लॉट का भाग, दक्षिणः 20 फीट रोड।	15.6.2021 से लागू
मारी, पुत्री श्री हरीश वासन, सभीः जी	सम्पत्ति 2: उक्त सम्पत्ति के नीचे भूमि के फ्रीहोल्ड आनुपातिक अधिकार के साथ टीवी/डिश एन्टीना/स्प्लिट टीवी/पंखे आदि संस्थापित कराने के	आगे के ब्याज के
3-19, ब्लॉक जी, उत्तम नगर, मोहन	अधिकार के साथ छत पर सीढ़ी के माध्यम से प्रवेश के अधिकार के साथ टु व्हीलर पार्किंग, सब मर्सिवल एन्ट्रैन्स, पैसेज के साथ नवादा ग्राम, मोहन	
र्डन, नई दिल्ली दिल्ली-110059	गार्डन के नाम से विदित कॉलोनी, ब्लॉक जी, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 में स्थित निर्मित प्रथम तल, बिना छत/टैरेस के अधिकार के, एरिया	44,83,010.77/-
ण खाता संख्याः PR00436710	माप 55 वर्ग यार्ड्स (अर्थात् 45.98 वर्ग मी.) सम्पत्ति नं. जी-18-19 में, खसरा नं. 478 में स्थित सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहदीः पूर्वः	चौआलिस लाख
त्रीकृत ऋण राशिः रु. 30,00,000/-	प्लॉट का भाग, पश्चिमः प्लॉट का भाग, उत्तरः प्लॉट का भाग, दक्षिणः 20 फीट रोड	हजार दस एवं पैसे
रु. तीस लाख मात्र)	माटंगैजर का नामः श्री अरुण कुमार एवं श्री अंकुश बिरमानी, पुत्र श्री सोमनाथ विरमानी।	मात्र)

प्रतिभतियों को प्रवर्त्तित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। आपका ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके अनुसार उपरोक्त प्रावधानों में निर्दिष्ट अवधि के भीतर आप प्रतिभृत परिसम्पत्तियों व

कृपया ध्यान रहे कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार हमारी सहमति के बिना आप बिक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप से उपरोक्त प्रतिभूतियों को अंतरित करने के लिए अधिकार से वंचित हैं।

WHITE ORGANIC RETAIL LIMITED

CIN: L01100MH2011PLC225123

Registered Office: 312A, Kailas Plaza Vallabh Baug Lane, Ghatkopar (East) Mumbai 400077, Maharashtra, India. Tel: +91-22-25011983, Telefax: +91-22-25011984, Email: info@whiteorganics.co.in; Website: www.whiteorganics.co.in

RECOMMENDATIONS OF THE COMMITTEE OF INDEPENDENT DIRECTORS ("IDC")

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of White Organic Retail Limited under Regulation 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 ("Takeover Regulations") in relation to the Open Offer made by Suumaya Retail Limited ("Acquirer") together with Suumaya Industries Limited (Formerly known as Suumaya Lifestyle Limited) ("PAC") to the Public Shareholders of White Organic Retail Limited ("WORL" or the "Target Company" or "TC") for the acquisition of Equity Shares of the Target Company

OIL 140	raiticulais	Report
1	Date	July 15, 2021
2	Name of the Target Company	White Organic Retail Limited
3	Details of the Open Offer pertaining TC	The Open Offer is being made by the Acquirer for Acquisition up to 28,36,080 (Twenty Eight Lakhs Thirty-Six Thousand and Eighty) Equity Shares of the face value of Rs.10/ (Rupees Ten only) each representing in aggregate 26% (Twenty-Six percent) of the tota paid up and voting equity share capital of the Target Company at an Offer price of Rs.37.45/- (Rupees Thirty-Seven and Forty-Five paise only) per fully paid up Equity Share payable in cash pursuant to Regulation 3(1) & 4 of SEBI (SAST) Regulations, 2011.
4	Name(s) of the Acquirer	Suumaya Retail Limited
5	Name(s) of the PAC	Suumaya Industries Limited (Formerly known as Suumaya Lifestyle Limited)
6	Name of the Manager to the offer	FEDEX SECURITIES PRIVATE LIMITED (Formerly known as Fedex Securities Limited) 3rd Floor, B Wing, Jay Chambers, Nanda Patkar Road, Vile Parle (E), Mumbai 400 057 Tel No.: +91 8104985149, Fax No.: 022 2618 6966 E-mail: mb@fedsec.in, Website: www.fedsec.in SEBI Registration Number: INM000010163 Investor Grievance E-mail: mb@fedsec.in, Contact Person: Yash Kadakia
7	Members of the Committee of Independent Directors ("IDC")	Mr. Pritesh Doshi - Chairman Mrs. Jigna Thakkar - Member
8	IDC Member's relationship with the TC (Director, Equity shares owned, any other contract/ relationship), if any other contract/ relationship), if any in the Target Company. None of the Members of the IDC have entered into have any relationship with the Target Company.	
9	Trading in the Equity shares/ other securities of the TC by IDC Members	None of the IDC members have traded in the Equity Shares of Target Company during 12 months prior to the date of the Public Announcement of the Offer on May 21, 2021
10	IDC. Member's relationship with the acquirers (Director, Equity shares owned, any other contract/ relationship), if any	None of the members of the IDC have any contracts / relationships / directorship holding Equity shares of the Acquirer.
11	Trading in the Equity shares/ other securities of the acquirer by IDC Members	NotApplicable.
12	Recommendation on the Open offer, as to whether the offer is fair and reasonable	The member of the IDC believe that the open offer made to the public shareholders of White Organic Retail Limited at the offer price of Rs. 37.45 (Thirty-Seven and paise Forty-Five only) per fully paid Equity Shares of face value of Rs. 10/- (Rupees Ten only each is fair and reasonable and the Open Offer is in conformity with provision of SEB (SAST) Regulation 2011.
13	Disclosure of Voting Pattern of the meeting in which the open offer proposal was discussed	All the IDC members unanimously voted in favor of recommending the open offe proposal.
14	Summary of reasons for recommendation	IDC has evaluated the Public Announcement dated May 21, 2021, the Detailed Public Statement dated May 27, 2021 and Draft Letter of Offer dated June 04, 2021 and Lette of Offer dated July 12, 2021. The IDC has taken into consideration the following for

making its recommendations:

regulations 2 (j) of Takeover Regulations.

Forty-Five paise only) per share.

Any other matters to be highlighted To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the TC under the Takeover Code.

Shares held by them in the Open Offer.

under Regulation 8(2) of Takeover Regulations.

For the behalf of Committee of Independent Directors of White Organic Retail Limited

The Equity shares of TC are frequently traded within the meaning as provided in

As per the Equity Share Valuation report dated on May 21, 2021 of White Organic

Retail Limited given by CA Nikul Jalan (Membership No. 112353) partner at, Gupta

Raj & Co., Chartered Accountants, having Firm Registration No.: 001687N,

accordingly, the Offer Price is of equity share of Rs. 37.45/- (Rupees Thirty-Seven and

The Offer Price of Rs. 37.45/- (Rupees Thirty-Seven and Forty-Five paise only) per

share is higher than price calculated after considering the parameters as specified

The public shareholders of the Target Company are advised to independently

evaluate the Open Offer and take an informed decision about tendering the Equity

Place: Mumbai Date: July 15, 2021 Chairman - Committee of Independent Directors

15 Details of Independent Advisor (if any) None

स्टाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड CIN: L20211CH1991PLC011732

पंजीकृत कार्यालयः एससीओ 14, सेक्टर-७सी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़-160019 30 जुन, 2021 समाप्त तिमाही के स्टैंडएलॉन एवं समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण

रु. लाखों मे 748.45 7,092.03 5,522.33 544.40 5,541.32 आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दशाई गई, के अनुसार 25,097.78 3.30 32.63 3.29 32.59 3.19

उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की 30 जून, 202⁷ को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन एवं समेकित वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप का सार है। अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन एवं समेकित तिमाही वित्तीय परिणामो का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट (www.bseindia.com) तथा सूचीबद्ध सत्ता की वेबसाईट (http://www.stylam.com) पर उपलब्ध है। निवेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

स्थानः चंडीगढ़

International

Travel House

तिथि: 15 जुलाई, 2021

इन्टरनेशनल ट्रेवल हाउस लिमिटेड पंजी. कार्यालयः "ट्रेवल हाउस", टी-2, कम्युनिटी सेन्टर, शेख सराय,

फेज— I, नई दिल्ली—110017 सीआईएनः L63040DL1981PLC011941 टेल.: 91-11-26017808 | ई-मेल.: Investor_TH@ith.co.in | वेबसाईटः www.internationaltravelhouse.in

30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित

वित्तीय परिणामों का सारांश

30.06.2021 31.03.2021 30.06.2020 विवरण को समाप्त को समाप्त को समाप्त क्रम तत्स्थानीय 3 महीने 3 महीने 12 महीने प्रचालनों से कुल आय 1,145.45 6,215.66 886.02 अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर और असाधारण मदों से पूर्व) (4,506.50) (789.10)(1,597.72)कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण मदों के बाद) (4,506.50)(1,597.72)(789.10)कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण मदों के बाद) (1,597.72)(789.10)(4,506.50)अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ / हानि से शामिल) (794.32)(4,501.27) (1,601.69)(कर के बाद तथा अन्य व्यापक आय के बाद) (कर के बाद) इक्विटी शेयर पूंजी 799.45 799.45 799.45 आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित) 9.741.33

2. तरल (रु.): टिप्पणीः

1. मूल (रु.):

- क) उपरोक्त सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारुप का सार है। विस्तृत अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम तथा इस सारांश की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 15 जुलाई, 2021 को आयोजित कम्पनी के निर्देशक मंडल की बैठक में उसे अनुमोदित किया गया। अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारुप कम्पनी की वेबसाईट (www.internationaltravelhouse.in) तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाईट (www.bseindia.com) पर उपलब्ध है।
- ख) सेबी (सूचीयन दायित्व तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत वांछित सीमित समीक्षा पूरी कर ली गई है तथा संबंधित रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज के अग्रसारित कर दिए हैं। इस रिपार्ट का 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के 'परिणामों तथा टिप्पणियों' पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ा है जिसकी व्याख्या की जाए।

तिथि । 15 जुलाई, 2021

हस्ता/— भगवतेश्वरन हरिहरन

(9.87)

(9.87)

(56.37)

(56.37)

बोर्ड के लिए तथा उसकी ओर से मोहित अग्रवाल मुख्य वित्त अधिकारी



रजिस्टर्ड व कॉर्पोरेट ऑफिस

आय प्रति शेयर (रु. 10 / – प्रति) (वार्षिक नहीं है) :

येस बॅक लिमिटेड, येस बॅंक टॉवर, वन इंटरनॅशनल सेंटर, टॉवर II, 15 वा मजला, सेनापती बापट मार्ग, एलफिन्स्टन (प), मुंबई - 400013, फ़ोन: +91 (22) 3366 9000 फैक्स: +91 (22) 2421 4500 वेबसाइट: www.yesbank.in ईमेल: deepansh.puri1@yesbank.in सीआयएन: L65190MH2003PLC143249

(अचल संपत्ति के लिए)

नियम 8 (1)

अधोहस्ताक्षरी ने येस बैंक लिमिटेड (''बैंक''), के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित सेक्यूरिटाइजेशन एंड रीकंस्ट्रक्शन ऑफ़ फायनांशियल एसेट्स एंड एन्फॉर्समेन्ट ऑफ़ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत तथा खंड 13 (12) के अंतर्गत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उधारकर्ता, **गुरू भोग फूड्स को इसके कर्ता रिकल आहुजा** के ज़रिए मॉर्टगेजकर्ताओं व गारंटर्स, श्री रिंकल आहजा सूप्त्र श्री राज कुमार आहजा, श्री राज कुमार आहजा सूप्त्र श्री राम कृष्ण आहजा, श्रीमती मधु बाला पत्नी श्री राज कुमार आहुजा, श्री जितेन्दर आहुजा सुपुत्र श्री राज कुमार आहुजा,श्रीमती सुनीता बाथला पत्नी श्री वनीत कुमार बाथला और श्री विनय कपूर सुपुत्र श्री केवल कृष्ण कपूर के साथ नोटिस के मिलने की तिथि से 60 दिनों के अंदर नोटिस में यथा दिनांक 17 नवंबर 2019 उल्लिखित कुल राशि ₹ 9,24,89,603.44/- (रु. नौ करोड़, चौबीस लाख, नवासी हजार, छह सौ तीन और पैसे चवालीस मात्र) तथा अनुबंधित दर/रों पर अर्जित/चुकाए न गए ब्याज के साथ बैंक को भुगतान किए जाने की तिथि तक के आनुषंगिक खर्चों, लागतों, चार्जेज आदि के साथ चुकाने के लिए मांग नोटिस दिनांक 19 दिसंबर 2020 जारी किया था.

उधारकर्ता/मॉर्टगेजकर्ता/गारंटर्स उक्त राशि को चुकाने में असफल रहे हैं, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता/मॉर्टगेजकर्ता/गारंटर्स एवं आम जनता को सचित किया जाता है कि सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम के खंड 13 के उपखंड (4) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी ने येस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नीचे वर्णित की हुई सम्पत्ति का इस 12 जुलाई 2021 को कब्जा प्राप्त कर लिया है.

उधारकर्ता/मॉर्टगेजकर्ता/गारंटर्स को विशेष रूप से तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि इस सम्पत्ति के साथ कोई सौदेबाजी न करें तथा इस सम्पत्ति के साथ कोई सौदेबाजी दिनांक 31 मई 2021 को उल्लिखित राशि ₹ 101,897,853.88/- (रु. दस करोड़, अठारह लाख, सत्तानवे हजार, आठ सौ तरेपन और पैसे अट्ठासी मात्र) तथा बैंक को अंतिम भुगतान किए जाने की तिथि तक उस पर अनुबंधित दर(रों) से अर्जित ब्याज/वसूली न किए गए ब्याज के साथ आकस्मिक खर्चों, लागतों, चार्जेज आदि सहित की राशि के लिए येस बैंक लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगी.

उधारकर्ता/मॉर्टगेजकर्ता/गारंटर्स का ध्यान, सिक्योर्ड एसेट्स को रिडीम करने के लिए उपलब्ध समय के बारे में, अधिनियम के खंड 13 के उपखंड 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है.

अचल संपत्ति का विवरण

अचल संपत्ति का संपूर्ण तथा अभिन्न हिस्सा जो कि तीसरी मंजिल, प्लॉट नं: 8, ब्लॉक बी2, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली पर स्थित है, जिसका परिमाप 2,799.99 वर्ग फीट है और जिसकी स्वामित्वधारक सुश्री सुनीता बाथला पत्नी श्री वनीत कुमार बाथला है और जो इससे घिरी है : उत्तर :प्लॉट नं.बी2/7, दक्षिण- प्लॉट नं.बी2/9, पूर्व-सड़क,पश्चिम-बी2/11,

दिनांक : 12 जुलाई 2021 स्थान : नई दिल्ली

(प्राधिकृत अधिकारी) येस बैंक लिमिटेड

夏/-

Lucknow

www.readwhere.com

Pritesh Doshi

जाहीर नोटीस

भूपेंद्र शारदा प्रसाद सिंह, यांच्या मालकीची

आहे. आणि सदरची सदनिका मिळकत

त्यांनी २०११ साली विकत घेतली होती.

मध्यंतरीच्या काळात दि. ०३/०५/२०२१ रोजी

श्री. भूपेंद्र शारदा प्रसाद सिंह यांचे निधन

झाले. मालकांच्या मृत्यू नंतर आमचे अशील

श्रीमती. जया सिंह मृत व्यक्तीच्या वारस

कोरोनाची तिसरी लाट कधी येणार? डब्ल्यूएचओच्या च्या प्रमुखांनी दिलं उत्तर; म्हणाले, ''दुर्दैवाने

जॅनीव्हा, दि. १५, (प्रतिनिधी) :

लसीकरणाचा वेग वाढु लागलेला असतानाच जगभरात करोनावर हळूहळू नियंत्रण मिळ् लागल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे. मात्र, हे चित्र फक्त काही देशांमध्येच दिसून येत असून जगभरात अजूनही कोरोना ठाण मांडून बसला असल्याचं जागतिक आरोग्य संघटनेचे प्रमुख डॉ. टेड्रोस अधानोम यांनी म्हटलं आहे. एकीकडे काही देशांमध्ये लसीकरणाचा वेग वाढला असताना अनेक देशांमध्ये लसींचा भयंकर तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यात डेल्टा व्हेरिएंट नं १११ देशांमध्ये आपले हातपाय पसरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर कोरोनाची तिसरी लाट नेमकी कधी येणार? या प्रश्नावर डब्ल्यएचओचे प्रमुख डॉ. टेडॉस यांनी

उत्तर दिलं आहे. आणि ते सगळ्यांचीच काळजी वाढवणारं आहे.

''दुर्दैवाने आपण कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या पहिल्या टण्यावर आहोत,'' असं टेड्रॉस यांनी स्पष्ट केलं आहे. "डेल्टा व्हेरिएंटचा वेगाने होणारा प्रसार, अनेक देशांमध्ये अनेक ठिकाणी पुन्हा होऊ लागलेली गर्दी आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा योग्य प्रकारे प्रभावीपणे न होणारा वापर या गोष्टी कोरोनाचे रुग्ण आणि करोनामुळे होणारे मृत्यू पुन्हा वाढण्यासाठी कारणीभृत ठरल्या आहेत,'' असं

देखील टेड्रॉस यांनी स्पष्ट केलं आहे.

नवी मुंबई महानगरपालिका

आरोग्य विभाग

निविदा सूचना क्र.- नम्मपा/आरोग्य/ 137 / 2021/ प्रथम मुदतवाढ सूचना

प्रयोगशाळेकरिता आवश्यक कंइ-युमेबल्स खरेदी करणेबाबतची निविदा.

संकेतस्यळ www.nmmc.gov.inआणि https://nmmc.etenders.inयावर

निविदेबाबतची विस्तृत माहिती नवी मुंबई महानगरपासिकेचे

चौकशी करणार आहेतः

स्वरुपाचा आहे काय?

१) वर नमूद केलेला न्यास अस्तित्वात आहे

२) खाली निर्दिष्ट केलेली मिळकत सदर

यासाच्या मालकीची आहे काय ?

अ) जंगम मिळकत (वर्णन) : रोख रु. १०००/-

काही हरकत ध्यावयाची असेल अगर पुराव

देनेचा असेल त्यांनी त्यांची लेखी कैफियत

ही नोटीस प्रसिध्द झाल्या तारखेपासून तीस

दिवसांच्या आंत या कार्यालयाचे वरील

पत्त्यावर मिळेल अशा रीतीने पाठवावी.

त्यानंतर आलेल्या कैफियतीचा विचार केला

जाणार नाही. तसेच मुदतीत कैफियत न

आल्यास कोणास काही सांगावयाचे नाही असे

समजून चौकशी पुरी केली जाईल व अर्जाचे

नेकालाबाबत योग्य ते आदेश दिले जातील.

ही नोटीस माझे सहीनिशी व मा. धर्मादार

आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे शिक्कवानिशी आज दिनांक ०७/०७/२०२९

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय

सही/-

अधीक्षक (न्याय)

बृहन्मुबइ विभाग, मुबइ

ब) स्थावर मिळकत (वर्णन) : निरंक

(अक्षरी रूपये एक हजार केवळ)

सदरच्या चौकशी प्रकरणामध्ये कोणास

काय ? आणि सदरचा न्यास सार्वजनिक

कामाचे नांव :- नवी मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत RTPCR

कामाची अंदाजीत किंमत - रु. 3020596/-

(13:00 वाजेपर्यंत)

नमुना क्र.७५

जाक-नमुमपा/जसं/जाहिरात/458/2021

बृहन्मुंबई विभाग मुंबई

मुंबई-४०००१८

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय

धर्मादाय आयुक्त भवन, २ रा मजला,

८३ डॉ. ॲनी बेझंट रोड, वरळी,

चौकशीची जाहीर नोटीस

अर्ज क्रमांक: सधआ-१० / १७६२ / २०२१

सार्वजनिक न्यासाचे नावः SHIKHAR

MS. SHREYA MAHENDRA PATIL ..अर्जदार

कळविण्यात येते की, सहाय्यक धर्मादाय

आयुक्त-१०, बृहन्मुंबई विभाग, मुंबई हे

वर नमूद केलेल्या अर्ज यासंबंधी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम,

११५० चे कलम १९ अन्वये खालील मुद्यांक

१) वर नमूद केलेला न्यास अस्तित्वात आहे

२) खाली निर्दिष्ट केलेली मिळकत सदर

न्यासाच्या मालकीची आहे काय ?

अ) जंगम मिळकत (वर्णन) : रोख रु. १०००/

काही हरकत घ्यावयाची असेल अगर पुराव

देणेचा असेल त्यांनी त्यांची लेखी कैफियत

ही नोटीस प्रसिध्द झाल्या तारखेपासून तीस

दिवसांच्या आंत या कार्यालयाचे वरील

पत्त्यावर मिळेल अशा रीतीने पाठवावी

त्यानंतर आलेल्या कैफियतीचा विचार केला

जाणार नाही. तसेच मुदतीत कैफियत न

आल्यास कोणास काही सांगावयाचे नाही असे

समजून चौकशी पुरी केली जाईल व अजांचे

निकालाबाबत योग्य ते आदेश दिले जातील.

ही नोटीस माझे सहीनिशी व मा. धर्मादाय

आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे शिक्क्वानिशी आज दिनांक १४/०७/२०२१

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय

अर्ज क्रमांक: सधआ-१० / १७६३ / २०२१

ASAAVARI SETH CHARITABLE

SHRI NISHANT LALITKUMAR SETH. अर्जदार.

कळविण्यात येते की, सहाय्यक धर्मादार

आयुक्त-१०, बृहन्मुंबई विभाग, मुंबई हे

सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम

१९५० चे कलम १९ अन्वये खालील मुद्यांवर

१) वर नमूद केलेला न्यास अस्तित्वात आहे

२) खाली निर्दिष्ट केलेली मिळकत सदर

न्यासाच्या मालकीची आहे काय ?

अ) जंगम मिळकत (वर्णन) : रोख रु. १०००/-

ब) स्थावर मिळकत (वर्णन) : निरंक

(अक्षरी रूपये एक हजार फक्त

सदरच्या चौकशी प्रकरणामध्ये कोणास

काही हरकत घ्यावयाची असेल अगर पुराव

देणेचा असेल त्यांनी त्यांची लेखी कैफियत

ही नोटीस प्रसिध्द झाल्या तारखेपासून तीस

दिवसांच्या आंत या कार्यालयाचे वरील

पत्त्यावर मिळेल अशा रीतीने पाठवावी

त्यानंतर आलेल्या कैफियतीचा विचार केला

जाणार नाही, तसेच मुदतीत कैफियत न

आल्यास कोणास काही सांगावयाचे नाही असे

समजून चौकशी पुरी केली जाईल व अर्जाचे

ही नोटीस माझे सहीनिशी व मा. धर्मादार

आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे

शिक्क्यानिशी आज दिनांक १४/०७/२०२१

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय

सही/-

अधीक्षक (न्याय)

बृहन्मुंबई विभाग, मुंबई

शिक्का

निकालाबाबत योग्य ते आदेश दिले जातील

काय? आणि सदरचा न्यास सार्वजनिक

सर्व संबंधित लोकांस जारीर नोटीशीन

नमूद केलेल्या अर्ज यासंबंधी महाराष्ट्र

बृहन्मुंबई विभाग मुंबई

सार्वजनिक न्यासाचे नावः

TRUST ...बाबत.

चौकशी करणार आहेत:-

स्वरूपाचा आहे काय ?

सही/-

अधीक्षक (न्याय)

बृहन्मुंबई विभाग, मुंबई

रोजी दिली.

शिक्का

नमुना क्र.७५

ब) स्थावर मिळकत (वर्णन) : निरंक

(अक्षरी रूपये एक हजार केवळ)

सदरच्या चौकशी प्रकरणामध्ये कोणार

काय? आणि सदरबा न्यास सार्वजनिक

चौकशी करणार आहेत:-

स्वरुपाचा आहे काय ?

सर्व संबंधित लोकांस जाहीर नोटीशीने

YOUTH FOUNDATION ...बाबत.

लसपुरवट्यात धक्कादायक भेदभाव

जगभरात लसपुरवट्यामध्ये केल्या जाणाऱ्या भेदभावाकडे देखील वेधलं आहे. ''सध्या जगात वेगवेगळ्या देशांना

डॉ. टेडॉस यांनी कोरोनासंदर्भातल्या

डब्ल्यूएचओच्या आपाकालीन समितीचं लक्ष

लसपुरवटा करण्यात धक्कादायक असा भेदभाव केला जात असून जीवनावश्यक सामग्रीच्या उपलब्धतेमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणावर देशादेशांमध्ये असमानता दिसून येत आहे,'' असं टेड्रॉस यांनी नमूद केलं आहे.

ER ADVERTISEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF SPECULAR MARKETING AND FINANCING LIMITED Corporate Identification Number: L51900MH1985PLC034994

Registered Office - EC-4052, 4th Floor, Bharat Diamond Bourse, BKC, Bandra East, Mumbai City, MH-400051

Email: specmkt@gmail.com | Website: www.specularmarketing.com

Open Offer ("Offer") for Acquisition of upto 2,20,480 (Two Lakh Twenty Thousand Four Hundred and Eighty) Equity Shares of INR 10/- (Rupees Ten only) each from equity shareholders of Specular Marketing and Financing Limited ("Target Company"), by Mr. Sanjiv Mulchand Sawia ("Acquirer 1") (PAN.:AAIPS0440G)
This Post Offer Advertisement is being issued by Fast Track Finsec Private Limited ("Manager to the Offer") on behalf of the Acquirers along n connection with the Offer made by the Acquirers to acquire 2,20,480 (Two Lakh Twenty Thousand Four Hundred and Eighty) Equity Share of Face Value of INR 10/- (Rupees Ten Only) each ("Equity Shares") of the Target Company at INR 100/- (Rupees One Hundred Only) per Equity Shares, representing 26% of the outstanding Equity Share Capital of the Target Company ("Offer"), in compliance with Regulation 18 (12) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and amendments thereof ("SEBI (SAST) Regulations, 2011"/ Regulations). The Detailed Public Statement with respect to the aforementioned Offer war

7.1	Offer Price	INR 100/- (Rupees One Hundred Only)	INR 100/- (Rupees One Hundred Only)	
Sr. No.	Particulars	Proposed in the Letter of Offer	Actuals	
7	Details of the Acquisition:			
6	Date of Completion of Payment of Consideration and communication of Rejection/ Acceptance	July 26, 2021, Monday		
5	Offer Details: a) Date of Opening of the Offer b) Date of Closure of the Offer	June 29, 2021, Tuesday July 12, 2021, Monday		
4	Name of the Registrar of the Offer	Link Intime India Private Limited		
3 Name of the Manager to the Offer Fast Track Finsec Private Limited				
2	Name of the Acquirer and PACs	Mr. Sarijiv Mulchand Sawla ("Acquirer 1") (PAN:AAHPS7500A) and Mr. Mulchand Lakhamsi Sawla ("Acquirer 2") (PAN:AAIPS0440G)		
1	Name of the Target Company	Specular Marketing And Financing Limited		

प्रसिध्द करण्यात आसेली आहे.संबंधित निविदाकारांनी याची नोंद घ्यावी. ऑनलाईन निविदा सादर करावयाची अंतिम दिनांक 20/07/2021 Aggregate No. of Shares Tendered 2,20,480 Equity Shares 7.3 Aggregate No. of Shares Accepted 2,20,480 Equity Shares* Rs. 2,20,48,000/- (Rupees Two Cross Size of the Offer (Number of Equity Shares multiplied by वैदयकिय आरोग्य अधिकारी venty Lakh and Forty Eight Offer Price per Equity Shares) नवी मुंबई महानगरपालिका Shareholding of the Acquirer before Public % of Equity Share Capital Shares acquired/ to be acquired by way of Share Purchase Agreement

नमुना क्र.७५ MI सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय बृहन्मुंबई विभाग मुंबई 10,000 10,000 धर्मादाय आयुक्त भवन, २ रा मजला, % of Equity Share Capital .18% .18% ८३ डॉ. ॲनी बेझंट रोड, वरळी, Shares acquired/ to be acquired by way of Business मुंबई-४०००१८ Succession Agreement No. % of Equity Shares Capital 5.00,000 * चौकशीची जाहीर नोटीस 70.75% Shares acquired by way of Open Offer a) No. b) % of Equity Share Capital अर्ज क्रमांक : ACC/ X / 1696/ 2021 सार्वजनिक न्यासाचे नाव: Shares acquired after Detailed Public Statement ("DPS" Shreem Foundation ...बाबत. Mrs. Rajshree Prashant Gaikwad ... ঝর্ডাবার % of Equity Share Capital

c) Price of Shares acquired
Post Offer shareholding of the Acquirer and PACs सर्व संबंधित लोकांस जाहीर नोटीशीने & of Equity Share Capita & of Equity Share Capital कळविण्यात येते की, सहाय्यक धर्मादाय Shares 8,30,480 97.93% आयुक्त-१०, बृहन्मुंबई विभाग, मुंबई हे Pre-Offer Pre-Offer Post-Offer 7.10 Pre & Post Offer shareholding of the Public Post-Offer नमूद केलेल्या अर्ज यासंबंधी महाराष्ट्र No. % of Equity Share Capita 1,12,800 1,12,800 1,12,800 सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० चे कलम १९ अन्वये खालील मुद्यांव * Assuming full acceptance in the Open Offer

 Assuming our acceptance in our open-order.
 Actual Shares will be held by promoter after receiving the In-principal approval in-principal approval is pending for the proposed allotment at the end of BSE. noter after receiving the In-principal approval and allotment made by the Company. At presen The Acquirers severally and jointly accepts full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement an also for the obligations under SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers), 2011.

A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the website of SEBI, BSE Limited and registered office of the Target

ms used in this Advertisement, but not defined herein, shall have the same meanings assigned to such terms in the Letter Offer dated 22:06:2021

red by Manager to the Offer on

Fastrack Finsec **Fast Track Finsec Private Limited** Place: New Delhi Date: July 15, 2021

Website: www.ftfinsec.com Contact Person: Mr. Vikas Kuma SEBI Reg. No.: INM000012500 CIN: U65191DL2010PTC200381

WHITE ORGANIC RETAIL LIMITED

CIN: L01100MH2011PLC225123

Registered Office: 312A, Kailas Plaza Vallabh Baug Lane, Ghalkopar (East) Mumbai 400077, Maharashtra, India. Tel: +91-22-25011983, Telefax: +91-22-25011984, Email: info@whiteorganics.co.in; Website: www.whiteorganics.co.in

RECOMMENDATIONS OF THE COMMITTEE OF INDEPENDENT DIRECTORS ("IDC")

nendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of White Organic Retail Limited under Regulation 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 ("Takeover Regulations") in relation to the Open Offer made by Suumaya Retail Limited ("Acquirer") together with Suumaya Industries Limited (Formerly known as Suumaya Lifestyle

Sr. No	Particulars	Report
1	Date	July 15, 2021
2	Name of the Target Company	White Organic Retail Limited
3	Details of the Open Offer pertaining TC	The Open Offer is being made by the Acquirer for Acquisition up to 28,36,080 (Twenty- Eight Lakhs Thirty-Six Thousand and Eighty) Equity Shares of the face value of Rs.10I- (Rupees Ten only) each representing in aggregate 26% (Twenty-Six percent) of the total paid up and voting equity share capital of the Target Company at an Offer price of Rs.37.45I- (Rupees Thirty-Seven and Forty-Five paise only) per fully paid up Equity Share payable in cash pursuant to Regulation 3(1) 8.4 of SEBI (SAST) Regulations, 2011.
4	Name(s) of the Acquirer	Suumaya Retail Limited
5	Name/s) of the PAC	Suumava Industrias I imitad /Enmadu known as Suumava I ifast da I imitadi

चौकशीची जाहीर नोटीस

Anjali Sachin Sarkale ...अर्जदार.

Details of Independent Advisor (if any) None

16 Any other matters to be highlighted None

Date: July 15, 2021

formation required to be disclosed by the TC under the Takeover Code

आयुक्त-१०, बृहन्मुंबई विभाग, मुंबई हे वर नमूद केलेल्या अर्ज यासंबंधी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० चे कलम १९ अन्वये खालील मुद्यांवर चौकशी करणार आहेत:-

काय ? आणि सदरचा न्यास सार्वजनिक स्वरुपाचा आहे काय ?

२) खाली निर्दिष्ट केलेली मिळकत सदर न्यासाच्या मालकीची आहे काय?

(अक्षरी रूपये एक हजार केवळ) ब) स्थावर मिळकत (वर्णन) : लागू नाही

काही हरकत घ्यावयाची असेल अगर पुराव देणेचा असेल त्यांनी त्यांची लेखी कैफियत ही नोटीस प्रसिध्द झाल्या तारखेपासून तीस दिवसांच्या आंत या कार्यालयाचे वरील पल्यावर मिळेल अशा रीतीने पाठवावी त्यानंतर आलेल्या कैफियतीचा विचार केला जाणार नाही. तसेच मुदतीत कैफियत न आल्यास कोणास काही सांगावयाचे नाही असे समजून चौकशी पुरी केली जाईल व अर्जाचे

शिक्का सही/-अधीक्षक (न्याय) सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय

नमुना क्र.७५ सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय बृहन्मुंबई विभाग मुंबई

धर्मादाय आयुक्त भवन, २ रा मजला, ८३ डॉ. ॲनी बेझंट रोड, वरळी, धर्मादाय आयुक्त भवन, २ रा मजला, ८३ डॉ. ॲनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई-४०००१८ मुंबई-४०००१८ चौकशीची जाहीर नोटीस

रोजी दिली.

अर्ज क्रमांक : ACC/ X/ 1684/ 2021 सार्वजनिक न्यासाचे नावः Anirvedh Charitable Trust ...बाबत.

सर्व संबंधित लोकांस जाहीर नोटीशीने कळविण्यात येते की, सहाय्यक धर्मादाय

१) वर नमूद केलेला न्यास अस्तित्वात आहे

अ) जंगम मिळकत (वर्णन) : रोख रु. १०००/-

सदरच्या चौकशी प्रकरणामध्ये कोणास निकालाबाबत योग्य ते आदेश दिले जातील.

ही नोटीस माझे सहीनिशी व मा. धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे शिक्क्यानिशी आज दिनांक १४/०७/२०२१ रोजी दिली.

बृहन्मुंबई विभाग, मुंबई

Limited) ("PAC") to the Public Shareholders of White Organic Retail Limited ("WORL" or the "Target Company" or "TC") for the

31. 140	Particulars	Report
1	Date	July 15, 2021
2	Name of the Target Company	White Organic Retail Limited
3	Details of the Open Offer pertaining TC	The Open Offer is being made by the Acquirer for Acquisition up to 28.36,080 (Twenty- Eight Lakhs Thirty-Six Thousand and Eighty) Equity Shares of the face value of Rs. 10 ¹ - (Rupees Ten only) each representing in aggregate 26% (Twenty-Six percent) of the total paid up and voting equity share capital of the Target Company at an Offer price of Rs.37.45/- (Rupees Thirty-Seven and Forty-Five paise only) per fully paid up Equity Share payable in cash pursuant to Regulation 3(1) & 4 of SEBI (SAST) Regulations, 2011.
4	Name(s) of the Acquirer	Suumaya Retail Limited
5	Name(s) of the PAC	Suumaya Industries Limited (Formerly known as Suumaya Lifestyle Limited)
6	Name of the Manager to the offer	FEDEX SECURITIES PRIVATE LIMITED (Formerly known as Fedex Securities Limited) 3rd Floor, B Wing, Jay Chambers, Nanda Patkar Road, Vile Parle (E), Mumbai 400 057 Tel No.: +91 8104985149, Fax No.: 022 2618 6966 E-mail: mb@fedsec.in, Website: www.fedsec.in SEBI Registration Number: INM000010163 Investor Grievance E-mail: mb@fedsec.in, Contact Person: Yash Kadakia
7	Members of the Committee of Independent Directors ("IDC")	Mr. Pritesh Doshi - Chairman Mrs. Jigna Thakkar - Member
8	IDC Member's relationship with the TC (Director, Equity shares owned, any other contract/ relationship), if any	The Members of the IDC are Independent Directors on the Board of Directors of the Target Company. None of the members of the IDC hold any Equity Shares' securities of the Target Company. None of the Members of the IDC have entered into any contract or have any relationship with the Target Company
9	Trading in the Equity shares/ other securities of the TC by IDC Members	None of the IDC members have traded in the Equity Shares of Target Company during 12 months prior to the date of the Public Announcement of the Offer on May 21, 2021
10	IDC. Member's relationship with the acquirers (Director, Equity shares owned, any other contract/ relationship), if any	None of the members of the IDC have any contracts / relationships / directorship / holding Equity shares of the Acquirer.
11	Trading in the Equity shares/ other securities of the acquirer by IDC Members	NotApplicable.
12	Recommendation on the Open offer, as to whether the offer is fair and reasonable	The member of the IDC believe that the open offer made to the public shareholders of White Organic Retail Limited at the offer price of Rs. 37.45 (Thirty-Seven and paise Forty-Five only) per fully paid Equity Shares of face value of Rs. 10/- (Rupees Ten only) each is fair and reasonable and the Open Offer is in conformity with provision of SEBI (SAST) Regulation 2011.
13	Disclosure of Voting Pattern of the meeting in which the open offer proposal was discussed	All the IDC members unanimously voted in favor of recommending the open offer proposal.
14	Summary of reasons for recommendation	IDC has evaluated the Public Announcement dated May 21, 2021, the Detailed Public Statement dated May 27, 2021 and Draft Letter of Offer dated June 04, 2021 and Letter of Offer dated Juny 12, 2021. The IDC has taken into consideration the following for making its recommendations: The Equity shares of TC are frequently traded within the meaning as provided in

regulations 2 (j) of Takeover Regulations.

Forty-Five paise only) per share.

under Regulation 8(2) of Takeover Regulations.

Shares held by them in the Open Offer,

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all naterial respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the

As per the Equity Share Valuation report dated on May 21, 2021 of White Organ

Retail Limited given by CA Nikul Jalan (Membership No. 112353) partner at, Gupta

Raj & Co., Chartered Accountants, having Firm Registration No.: 001687N

accordingly, the Offer Price is of equity share of Rs. 37.45/- (Rupees Thirty-Seven and

The Offer Price of Rs. 37.45/- (Rupees Thirty-Seven and Forty-Five paise only) pe

share is higher than price calculated after considering the parameters as spec

The public shareholders of the Target Company are advised to independent

evaluate the Open Offer and take an informed decision about tendering the Equity

White Organic Retail Limited

Chairman - Committee of Independent Directors

Pritesh Dosh

PUBLIC NOTICE NOTICE is hereby given that My client Mr Merlin Alphonso Fernandes Wife'o Mr. Alphons सर्व लोकांना सुचना देण्यात येते की. सदनिका मिळकत क. २०१, बी – विंग, न्यू साई करिष्मा Joseph Fernandes, states that her husband is been missing since 2018, missing report for the आरकेड को. ऑ. हो. सो. लि; आयडील पार्क जवळ, दीपक हॉस्पिटल लेन, मीरा रोड (पू) ता. आणि जि. ठाणे ४०११०७ ही मिळकत **कै**

same was lodged on 28/07/2020 bearing no 63/2020 at MIDC Police station & she had also published a missing person article in the newspaper of Goa as he often visit there, but he is not traceable till date therefore as the leca owner of below mentioned room premises sh is willing to sell, the room premises havin Room No. F/4, Ground Floor, Achanak Colon CHS Ltd. Mahakali Caves Road, Andheri (East Mumbai - 400093 free from all encumbrances t

Mr. Raju kumar Fullkant Jha. Any person having any right, title, interest, clair or demand of any nature whatsoever in respe of the said room premises, is hereby required to make the same known in writing along with the documentary proof thereof, to the undersigne within Seven days from the date of publication hereof, failing which the negotiations shall be completed, without any reference to such claims and the claims if any, shall be deemed to have been given up or waived.

Sdl-Adv. Santosh Yada B-3, B Wing, 3rd Floor, Kanakia SRA Building, Behind Kanakia Walls Street, Opp Divine Child School, Andheri Kurla Road Andheri east, Mumbai 400093 Contact No. 9820959658 Date: 16/07/2021.

(पत्नी) या नात्याने वरील मिळकती संदर्भातील मृत व्यक्तीचे असलेले सर्व अधिकार स्वतःच्या नावे होण्याकरिता दावा करीत आहेत. तरी या बाबत जर कोणाची काहीही हरकत / दावे असलयास ती आमच्या खालील पत्यावर १४ दिवसांचे आत नोंदवावी तसे न केलयार आमचे अशील पुढील कारवाई पूर्ण करतील आणि या विषयी कोणाचीही कोणतीही तकार ऐकून घेतली जाणार नाही याची नोंद घावी. मंदार असोसीएट्स ॲड्वोकेट्स पत्ताः बी - १४, शांती शोप्पिंग सेंटर, रेलवे स्टेशन समोर, मीरा रोड (पू), ता. व जि. ठाणे ४०१ १०७.

दि. १६.०७.२०२१

ठिकाण : मीरा रोड

मुंबई इमारत दुरूरती व पुनर्चना मंडळ, मुंबई अस्त्रीविक

(म्हाडाचा घटक)

कार्यकारी अभियंता (व-१ विभाग), मुं.इ.दु. व पु. मंडळ, खोली क्र.१०१ ते १०४, इमारत क्र.५७-५९बी, दादरकर कंपाऊंड इमारत, एस.सी. मार्केट समोर, ताडदेव,

र्ड-निविदा सूचना

Mainportal: https://mahatenders.gov.in MHADA portal: https://mhada.maharashtra.etenders.in

कार्यकारी अभियंता (ब-१) विभाग, मुंबई दरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ, म्हाडाचा विभागीय घटक, रुम नं.१०१-१०४, इमारत क्र.५७-५९बी, दादरकर कंपाऊंड इमारत, ताडदेव, मुंबई-४००००९ यांचेकडून खालील दर्शविलेल्या कामासाठी सार्वजनिक वांधकाम विभाग (महाराष्ट्र शासन), महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडे उचित वर्गात नोंदणीकृत असलेल्या ठेकेदारांकडून ई-निविदा मागविण्यात येत आहेत. तसेच पी.डब्ल्यु.डी./एम.ई.एस./एम.सी.जी.एम./एम.एम.आर.डी.ए./सिडको/एम.जे.पी./ एम.आय.डी.सी./बी.पी.टी. आणि भारतीय रेल्वे शासकीय निमशासकीय यांचेकडे उचित वर्गात नोंदणीकृत असलेल्या ठेकेदारांकडून ई-निविदा मागविण्यात येत आहेत.

इ- मिनिय क्र.	कामाचे नाव	अंदाजपत्रकीय रक्तम	इसारा रक्तम	सुरक्षा अनामत	नांदणी वर्ग	निविद्यो किंमन (GST) धरुन	काम पुणे करण्याचा कालावधी
3	इमारत क.२१७- २१९, सॅम्बुअल स्ट्रिट (मंडळ)		११०००/-	32000.00	वर्ग-VII व त्यावरील	५६०/-	१२ महिने (पावसाळा धरुन)
'n	इमारत क.२९१- २९३, सॅम्बुअल स्ट्रिट (मंडळ)		१६०००/-	3₹000.00	वर्ग-VII व त्यावरील	५६०/-	१८ महिने (पावसाळा धरुन)
	इमारत क्र.६०-६०ई, मोहम्मद अली रोड (मंडळ)	×0,80,088/-	80350\-	63000.00	वर्ग-V व त्यावरील	480/-	१८ महिने (पावसाळा धरुन)
¥	इमारत क्र.१५३- १५९, इस्राहिम रहिमतुङ्का रोड (मंडळ) रच्या वेळी	-\\$00,\$\$,08	x0450\-	\$ \$000.00	वर्ग-V व त्यावरील	५६०/-	१८ महिने (पावसाळा धरुन)
अनु.	क्र. प्रक्रिया			दिनांक व वे	ळ		

अनु.क्र.	प्रक्रिया	दिनांक व वेळ			
08	प्रकाशन दिनांक	१७.०७.२०२१ सकाळी १०.०० वाजल्यापासून			
03	कागदपत्रांची विक्री सुरुवात	१७.०७.२०२१ सकाळी १०.०० बाजल्यापासून			
0.3	कागदपत्रांची विक्री शेवट	२६.०७.२०२१ सायंकाळी ०५.३० वाजेपर्यंत			
08	देकार सादर सुरुवात	१७.०७.२०२१ सकाळी १०.०० वाजल्यापासून			
04	देकार सादर शेवट	२६.०७.२०२१ सायंकाळी ०५.३० वाजेपर्यंत			
0६	तांत्रिक देकार उघडण्याची वेळ	२८.०७.२०२१ सकाळी ११.०० वाजल्यापासून			
06	आर्थिक देकार उघडण्याची वेळ	२८.०७.२०२१ सकाळी ११.०० वाजल्यापासून			

संपूर्ण निविदा प्रक्रिया ऑनलाईन (ई-टेंडरींग) दोन लिफाफे पद्भतीची असेल. निविदेसंबंधी अधिसुचना, अटी व शर्ती महाराष्ट्र शासनाची वेबसाईट https:// mahatenders.gov.in याबर प्रसिद्ध होईल.

२. निविदा संबंधीत दस्तऐवज वेबसाईट https://mahatenders.gov.in यावर पाहन दिनांक १७.०७.२०२१ (सकाळी १०.३० वाजेपासून) ते दिनांक २६.०७.२०२१ (सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत) वेवसाईट वरून डाऊनलोड व अपलोड करता येईल.

वरील निविदेचे निविदा शल्क व इसारा रक्कम ऑनलाईन पद्धतीने भरावे लागेल.

४. तांत्रिक निविदा (Technical Bids) दिनांक २८.०७.२०२१ रोजी सकाळी ११.०० वाजता व दर निविदा (Price Bids) दिनांक २८.०७.२०२१ रोजी सकाळी ११.०० वाजता त्याप्रमाणे पात्रताधारक ठेकेदारांना कळविण्यात येईल. कार्यकारी अभियंता वी-२ विभाग, कार्यालय, मुंबई इमारत दरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (वी विभाग) कार्यालय, रुम नं.३०, तिसरा मजला, जे.जे. हॉस्पिटल समोर, वाबुला टॅंक क्रॉस लेन, मुंबई-४००००९ यांचे दालनात वेबसाईट https://mahatenders.gov.in वर उघडण्यात येईल.

निविदाकाराने निविदा सादर करताना अपलोड केलेली सर्व मुळ कागदपत्रे पडताळणीसाठी तांत्रिक निविदा उघडण्याच्या वेळी सादर करावीत.

निविदाकाराने सादर केलेली माहिती व स्कॅन केलेल्या प्रती .pdf फॉरमॅटमध्ये तांत्रिक लिफाफ्यामध्ये सादर करावी.

७. कार्यकारी अभियंता, वी-१ विभाग, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ हे एक किंवा सर्व निविदा कोणतेही कारण न देता स्विकारण्याचा किंवा रह करण्याचा हक राखन ठेवत आहेत.

८. जीएसटी अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र रु.२० लक्षची मर्यादा विचारात न घेता अनिवार्य

जर पहिला निम्नतर निविदाकार अंदाजित निविदाधिन कामाच्या किंमतीचे धनाकर्प परफॉर्मन्स सेक्य्रिटी म्हणून (सुरक्षा अनामत रक्षम) भरु शकला नाही तर दसऱ्या निम्नतर निविदाकाराला स्वीकारण्यांत येईल.

१०.निविदाकारास निविदा संबंधीची संपूर्ण माहिती संकेतस्थळ https:// mahatenders.gov.in यावरून मिळवावी.

प्राधिकरणाच्या / शासनाच्या वेळोवेळी जारी केलेल्या परिपत्रक तसेच मार्गदर्शक सूचनांनुसार निविदा उघडण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

हाडा-गृहनिर्माण क्षेत्रातील देशातील अग्रगण्य संस्था

कार्यकारी अभियंता (ब-१) सीपीआरओ/ए/३०१ मुंबई इमारत दरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ

मुख्य कार्यालय - एम. एस. मीदिया अँग द पब्लिकेशन प्रा. लि. करिता मुद्रक, प्रकाशक, क्ही.पी. चांत्यदकर यांनी सोमानी प्रिटींग प्रेस, गाला नं. ह आणि ४, अमिन इंटस्ट्रीअल इस्ट्रेट, सोनावाला क्रॉस रोड, नं. २, नवाहर नव्य फाटक त्रीच, गोरेगाव (पूर्व), मुंबई- ४०० ०६ ह येथे छापून एम. एस. मीदिया अँग द पब्लिकेशन प्रा. लि. केसर प्लाञ्चा, ५०२ ए/बिंग, प्लॉट न.२३९, आर. दी. पी-६ पहादा लेआकट, बारकोप, कांदिवली (प.), मुंबई ४०००६७ येथून प्रसिद्ध केले. दूरभ्वती ०२२-२०८९१२७६, ०२२-२८६९७६४८/४७, ०९८३३८९१८८८, ९८३३८५२१११ फॅक्स :२८६८२७४४ अंकात प्रसिद्ध झालेल्या वातप्या व लेख यामपील व्यक्त झालेल्या मताशी संपादक, संचालक सहमत असलीलच असे नाही. संपानक- द्री.एन.शिने, कायनेनिषयक सहागार- अंट. धानुनास जगताप आणि एमफेएस लिगल असोसिएट्स, RNI No. MAHAMAR/2001/05426 ई-मेल mumbai lakshadeep@gmail.com. lakshadeep@gmail.com/msmedia@rediffmail.com/msmedia@rediffmail.com, mumbailakshadeepnews@gmail.com.